



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 441]

नई दिल्ली, बहस्पतिवार, जून 1, 2017/ज्येष्ठ 11, 1939

No. 441]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 1, 2017/JYAISTHA 11, 1939

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2017

सा.का.नि. 540(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय तार नियम, 1951 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय तार (सातवा संशोधन) नियम, 2017 है।  
(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय तार नियम, 1951 में,-नियम 525 के उपनियम (1) के पश्चात निम्नलिखित उप नियम को शामिल किया जाएगा, अर्थात्

“(1क) परामर्शी सहायता अथवा सलाहकार सहायता को वित्त पोषित करने के लिए कोष से निम्नलिखित के लिए मांगी गई वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी-

- (i) किसी यूएसओएफ स्कीम को बनाने अथवा तैयार करने में;
- (ii) किसी यूएसओएफ स्कीम कोलागू करने में,
- (iii) किसी यूएसओएफ स्कीम की मध्यावधि समीक्षा में
- (iv) किसी स्कीम के लिए यूएसओएफ के संविदा प्रबंधन, निगरानी और प्रवर्तन क्षमताओं में सुधार करने के लिए
- (v) किसी यूएसओएफ स्कीम की सामाजिक लेखा परीक्षा के प्रभाव आकलन अथवा मूल्यांकन करने के लिए अथवा जैसा भी मामला हो ”

[फा. सं. 1-8/2016/यूएसओएफ]

अमित यादव, संयुक्त सचिव (प्रशा.),

**टिप्पणी :** मुख्य नियम डाक एवं तार पुस्तिका खंड 1, विधायी अधिनियमन, भाग-2, संस्करण में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्या द्वारा संशोधित किए गए थे:-

1.	सा.का.नि. 190, दिनांक 18.फरवरी.1984	37	सा.का.नि. 865, (अ)दिनांक 29.सितम्बर.1989
2.	सा.का.नि. 386, दिनांक 22.मई.1984	38	सा.का.नि. 413, (अ)दिनांक 29.मार्च.1990
3.	सा.का.नि. 387, (अ)दिनांक 22.मई.1984	39	सा.का.नि. 574, (अ)दिनांक 15.जून.1990
4.	सा.का.नि. 679, दिनांक 30.जून.1984	40	सा.का.नि. 933, (अ)दिनांक 03.दिसम्बर.1990
5.	सा.का.नि. 428, दिनांक 27.4.1985	41.	सा.का.नि. 985, (अ)दिनांक 20.दिसम्बर.1990
6.	सा.का.नि. 729, दिनांक 03.अगस्त.1985	42.	सा.का.नि. 74, (अ)दिनांक 18.जनवरी.1991
7.	सा.का.नि. 982, दिनांक 19.अक्टूबर.1986	43.	सा.का.नि. 237, (अ)दिनांक 25.अप्रैल.1991
8.	सा.का.नि. 553 (अ), दिनांक 27.मार्च.1986	44.	सा.का.नि. 251, (अ)दिनांक 02.मई.1991
9.	सा.का.नि. 314, दिनांक 26.अप्रैल.1986	45.	सा.का.नि. 543, (अ)दिनांक 21.मई.1992
10.	सा.का.नि. 566, दिनांक 26.जुलाई.1986	46.	सा.का.नि. 560, (अ)दिनांक 26.मई.1992
11.	सा.का.नि. 953, (अ) दिनांक 23.जुलाई.1986	47.	सा.का.नि. 587, (अ)दिनांक 10.जून.1992
12.	सा.का.नि. 1121, (अ)दिनांक 1.अक्टूबर.1986	48.	सा.का.नि. 730, (अ)दिनांक 19.अगस्त.1992
13.	सा.का.नि. 1167, (अ) दिनांक 28.अक्टूबर.1986	49.	सा.का.नि. 830, (अ)दिनांक 28.अक्टूबर.1992
14.	सा.का.नि. 1237, (अ) दिनांक 28.नवम्बर.1986	50.	सा.का.नि. 62, (अ)दिनांक 11.फरवरी.1993
15.	सा.का.नि. 49, दिनांक 17.जनवरी.1987	51.	सा.का.नि. 80, (अ)दिनांक 06.फरवरी.1993
16.	सा.का.नि. 112, (अ)दिनांक 25.फरवरी.1987	52.	सा.का.नि. 384, (अ)दिनांक 27.अप्रैल.1993
17.	सा.का.नि. 377, (अ)दिनांक 09.अप्रैल.1987	53.	सा.का.नि. 387, (अ)दिनांक 28.अप्रैल.1993
18.	सा.का.नि. 674, (अ)दिनांक 27.जुलाई.1987	54.	सा.का.नि. 220, (अ)दिनांक 26.मार्च.2004
19.	सा.का.नि. 719, (अ)दिनांक 18.अगस्त.1987	55.	सा.का.नि. 713, (अ)दिनांक 17.नवम्बर.2006
20.	सा.का.नि. 837, (अ)दिनांक 5.अक्टूबर.1987	56.	सा.का.नि. 193, (अ)दिनांक 01.मार्च.2007
21.	सा.का.नि. 989, (अ)दिनांक 17.दिसम्बर.1987	57.	सा.का.नि. 547, (अ)दिनांक 18.जुलाई.2008
22.	सा.का.नि. 337, (अ)दिनांक 11.मार्च.1988	58.	सा.का.नि. 49, (अ)दिनांक 27.जनवरी.2010
23.	सा.का.नि. 361, (अ)दिनांक 201.मार्च.1988	59.	सा.का.नि. 279, (अ)दिनांक 31.मार्च.2010
24.	सा.का.नि. 626, (अ)दिनांक 17.मई.1988	60.	सा.का.नि. 256, (अ)दिनांक 27.मार्च.2012
25.	सा.का.नि. 660, (अ)दिनांक 31.मई.1988	61.	सा.का.नि. 412, (अ)दिनांक 29.मई.2012
26.	सा.का.नि. 693, (अ)दिनांक 10.जून.1988	62.	सा.का.नि. 368, (अ)दिनांक 07.जून.2013
27.	सा.का.नि. 734, (अ)दिनांक 24.जून.1988	63.	सा.का.नि. 506, (अ)दिनांक 24.जुलाई.2013
28.	सा.का.नि. 606, दिनांक 14.जुलाई.1988	64.	सा.का.नि. 18, दिनांक 28.जनवरी.2014
29.	सा.का.नि. 812, (अ)दिनांक 26.जुलाई.1988	65.	सा.का.नि. 912, (अ)दिनांक 23.दिसम्बर.2014
30.	सा.का.नि. 888, (अ)दिनांक 01.सितम्बर.1988	66.	सा.का.नि. 653, (अ) दिनांक 25.अगस्त.2015
31.	सा.का.नि. 907, (अ)दिनांक 07.सितम्बर.1988	67.	सा.का.नि. 241, दिनांक 10. दिसम्बर. 2015
32.	सा.का.नि. 1054, दिनांक 2.नवम्बर.1988	68.	सा.का.नि. 297(अ), दिनांक 28 मार्च, 2017
33.	सा.का.नि. 179, दिनांक 18.मार्च. 1989	69.	सा.का.नि. 314(अ), दिनांक 31 मार्च, 2017
34.	सा.का.नि. 358, (अ)दिनांक 15.मार्च.1989	70.	सा.का.नि. 406(अ), दिनांक 20. अप्रैल.2017
35.	सा.का.नि. 622, (अ)दिनांक 15.जून.1989	71.	सा.का.नि. 439(अ), दिनांक 02. मई.2017
		72.	सा.का.नि. 482(अ), दिनांक 17. मई.2017
		73.	सा.का.नि. 507(अ), दिनांक 22. मई.2017

**MINISTRY OF COMMUNICATIONS**

(Department of Telecommunications)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st May, 2017

**G.S.R. 540(E).**—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely:-

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph (7<sup>th</sup> Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Telegraph Rules, 1951, in rule 525, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(1A) *Financial Support from the Fund shall also be provided for funding the consultancy assistance or advisory support sought-*

- (i) *in formulation or design of a USOF scheme;*
- (ii) *in administration of a USOF scheme;*
- (iii) *in mid-term review of USOF scheme;*
- (iv) *in improving contract management, monitoring and enforcement capabilities of USOF for a scheme; and*
- (v) *in conducting impact assessment or evaluation or as the case may be, social audit of a USOF scheme.”.*

[F. No. 1-8/2016-USOF]

AMIT YADAV, Jt. Secy. (A)

**Note:** The principal rules were published in the Post and Telegraph Manual Volume I, Legislative Enactments, Part II, Edition and subsequently amended *vide* notification numbers -

1. G.S.R. 190, dated the 18<sup>th</sup> February, 1984;
2. G.S.R. 386, dated the 22<sup>nd</sup> May, 1984;
3. G.S.R. 387(E), dated the 22<sup>nd</sup> May, 1984;
4. G.S.R. 679, dated the 30<sup>th</sup> June, 1984;
5. G.S.R. 428, dated the 27<sup>th</sup> April, 1985;
6. G.S.R. 729, dated the 3<sup>rd</sup> August, 1985;
7. G.S.R. 982, dated the 19<sup>th</sup> October, 1986;
8. G.S.R. 553(E), dated the 27<sup>th</sup> March, 1986;
9. G.S.R. 314, dated the 26<sup>th</sup> April, 1986;
10. G.S.R. 566, dated the 26<sup>th</sup> July, 1986;
11. G.S.R. 953(E), dated the 23<sup>rd</sup> July, 1986;
12. G.S.R. 1121(E), dated the 1<sup>st</sup> October, 1986;
13. G.S.R. 1167(E), dated the 28<sup>th</sup> October, 1986;
14. G.S.R. 1237(E), dated the 28<sup>th</sup> November, 1986;
15. G.S.R. 49, dated the 17<sup>th</sup> January, 1987;
16. G.S.R. 112(E), dated the 25<sup>th</sup> February, 1987;
17. G.S.R. 377(E), dated the 9<sup>th</sup> April, 1987;
18. G.S.R. 674(E), dated the 27<sup>th</sup> July, 1987;
19. G.S.R. 719(E), dated the 18th August, 1987;
20. G.S.R. 837(E), dated the 5<sup>th</sup> October, 1987;
21. G.S.R. 989(E), dated the 17<sup>th</sup> December, 1987;
22. G.S.R. 337(E), dated the 11<sup>th</sup> March, 1988;
23. G.S.R. 361(E), dated the 21<sup>st</sup> March, 1988;
24. G.S.R. 626(E), dated the 17<sup>th</sup> May, 1988;
25. G.S.R. 660(E), dated the 31<sup>st</sup> May, 1988;
26. G.S.R. 693(E), dated the 10<sup>th</sup> June, 1988;
27. G.S.R. 734(E), dated the 24<sup>th</sup> June, 1988;
28. G.S.R. 606, dated the 14<sup>th</sup> July, 1988;
29. G.S.R. 812(E), dated the 26<sup>th</sup> July, 1988;
30. G.S.R. 888(E), dated the 1<sup>st</sup> September, 1988;
31. G.S.R. 907(E), dated the 7<sup>th</sup> September, 1988;
32. G.S.R. 916(E), dated the 9<sup>th</sup> September, 1988;
33. G.S.R. 1054, dated the 2<sup>nd</sup> November, 1988;
34. G.S.R. 179, dated the 18<sup>th</sup> March, 1989;
35. G.S.R. 358(E), dated the 15<sup>th</sup> March, 1989;
36. G.S.R. 622(E), dated the 15<sup>th</sup> June, 1989;
37. G.S.R. 865, dated the 29<sup>th</sup> September, 1989;
38. G.S.R. 413(E), dated the 29<sup>th</sup> March, 1990;

- |   |   |
|---|---|
| 39. G.S.R. 574(E), dated the 15 <sup>th</sup> June, 1990;     | 57. G.S.R. 547(E), dated the 18 <sup>th</sup> July, 2008;     |
| 40. G.S.R. 933(E), dated the 3 <sup>rd</sup> December, 1990;  | 58. G.S.R. 49(E), dated the 27 January, 2010;                 |
| 41. G.S.R. 985(E), dated the 20 <sup>th</sup> December, 1990; | 59. G.S.R. 279(E), dated the 31 <sup>st</sup> March, 2010;    |
| 42. G.S.R. 74(E), dated the 18 <sup>th</sup> January, 1991;   | 60. G.S.R. 256(E), dated the 27 <sup>th</sup> March, 2012;    |
| 43. G.S.R. 237(E), dated the 25 <sup>th</sup> April, 1991;    | 61. G.S.R. 412(E), dated the 29 <sup>th</sup> May, 2012;      |
| 44. G.S.R. 251(E), dated the 2 <sup>nd</sup> May, 1991;       | 62. G.S.R. 368(E) dated the 07 <sup>th</sup> June, 2013;      |
| 45. G.S.R. 543(E), dated the 21 <sup>st</sup> May, 1992;      | 63. G.S.R. 506(E) dated the 24 <sup>th</sup> July, 2013;      |
| 46. G.S.R. 560(E), dated the 26 <sup>th</sup> May, 1992;      | 64. G.S.R. 18 dated the 28 <sup>th</sup> January, 2014;       |
| 47. G.S.R. 587(E), dated the 10 <sup>th</sup> June, 1992;     | 65. G.S.R. 912(E) dated the 23 <sup>rd</sup> December, 2014;  |
| 48. G.S.R. 730(E), dated the 19 <sup>th</sup> August, 1992;   | 66. G.S.R. 653(E) dated the 25 <sup>th</sup> August, 2015;    |
| 49. G.S.R. 830(E), dated the 28 <sup>th</sup> October, 1992;  | 67. G.S.R. 241 dated the 10 <sup>th</sup> December, 2015; and |
| 50. G.S.R. 62(E), dated the 11 <sup>th</sup> February, 1993;  | 68. G.S.R. 297(E) dated the 28 <sup>th</sup> March, 2017;     |
| 51. G.S.R. 80, dated the 6 <sup>th</sup> February, 1993;      | 69. G.S.R. 314(E) dated the 31 <sup>st</sup> March, 2017;     |
| 52. G.S.R. 384(E), dated the 27 <sup>th</sup> April, 1993;    | 70. G.S.R. 406(E) dated the 20 <sup>th</sup> April, 2017;     |
| 53. G.S.R. 387(E), dated the 28 <sup>th</sup> April, 1993;    | 71. G.S.R. 439(E) dated the 2 <sup>nd</sup> May, 2017;        |
| 54. G.S.R. 220(E), dated the 26 <sup>th</sup> March, 2004;    | 72. G.S.R. 482(E) dated the 17 <sup>th</sup> May, 2017; and   |
| 55. G.S.R. 713(E), dated the 17 <sup>th</sup> November, 2006; | 73. G.S.R. 507(E) dated the 22 <sup>nd</sup> May, 2017.       |
| 56. G.S.R. 193(E), dated the 01 <sup>st</sup> March, 2007;    |   |